



DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : T-73

Date : 18 March 2024

TECHNICAL COMMITTEE : Refrigeration And Air Conditioning, MED 03

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Refrigeration And Air Conditioning Sectional Committee, MED 03. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : MED 03 (25074) WC

Title of the document : Air Filters for General Ventilation Part 4 Conditioning Method to Determine the Minimum Fractional Test Efficiency First Revision

Document Type : Revision of Indian Standard (IS 17570 : Part 4 : 2021)

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) This document establishes a conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency.

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 17 April 2024

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at med@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(K VENKATESWARA RAO)
Head (Mechanical Engineering Department)
Email: med@bis.gov.in



व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : T-73

दिनांक : 18-03-2024

तकनीकी समिति : Refrigeration And Air Conditioning Sectional Committee, MED 03

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : MED 03 (25074) WC

शीर्षक :

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 17 April 2024

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,
विभाग प्रमुख का नाम : K VENKATESWARA RAO
(Mechanical Engineering Department)
ई-मेल : med@bis.gov.in